



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 94) पटना, सोमवार, 1 फरवरी 2016

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचना
8 जनवरी 2016

सं0 I/ए⁴-(स्था0)-10-24/2010-133—मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 03.06.2014 के मद संख्या-02 में लिये गये निर्णय के आलोक में अनारक्षित कोटि की दिनांक 01.01.2015 को उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध श्री विकास कुमार सिन्हा, अधीक्षक उत्पाद, वेतनमान PB² (9300-34800)+ग्रेड पे 4800/- को दिनांक 01.01.2015 के प्रभाव से सहायक आयुक्त उत्पाद वेतनमान PB² (9300-34800)+ग्रेड पे 5400/- के पद पर नियमित प्रोन्नति दी जाती है। श्री सिन्हा को प्रभार ग्रहण की तिथि से आर्थिक लाभ अनुमान्य होगा।

2. यह प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0(सी) संख्या-29770/2015 बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित न्याय निर्णय के फलाफल से प्रभावित होगा।

3. एतद् विषयक पूर्व निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक 3778 दिनांक 19.12.2014 एवं अधिसूचना ज्ञापांक 5276 दिनांक 26.12.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय राज,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 94-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>